

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 08 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1186/ले0-II/(ब)/2017-18, दिनांक 01 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचत में से ₹ 34.18 लाख (रुपये चौतीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि मद संख्या-08-कार्यालय व्यय, मद संख्या-09-विद्युत देय, मद संख्या-13-टेलीफोन पर व्यय, मद संख्या-23-गुप्त सेवा तथा मद संख्या-27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में संलग्न बी0एम0-09 के विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि में से कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी राशि के व्यय की वास्तविक आवश्यकता है।



4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में से संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-238 मतदेय/XXVII(5)/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- उक्त स्वीकृति संलग्न कम्प्यूटर अलॉटमेंट आई0डी0-S1802090034, दिनांक 05 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव


संख्या- 57 /XXX(4)/2018-03(5)/2017, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, वित्तीय डाटा सेन्टर, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमा पाण्डे)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Personnel (S035)

आवंटन पत्र संख्या - 57/XXX(4)/2018-03(5)/2017

अनोटमेंट आई डी - S1802090034

अनुदान संख्या - 009

आवंटन पत्र दिनांक -05-Feb-2018

HOD Name - Secretary Subordinate Service Selection Commission (2405)

1: लेखा शीर्षक 2051 - लोक सेवा आयोग 00 -
 103 - कर्मचारी चयन आयोग
 03 - उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
 00 - k

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	12941000	0	12941000
02 - मजदूरी	2000000	0	2000000
03 - महंगाई भत्ता	776000	0	776000
04 - यात्रा व्यय	300000	0	300000
06 - अन्य भत्ते	906000	0	906000
07 - मानदेय	600000	0	600000
08 - कार्यालय व्यय	600000	300000	900000
09 - विद्युत देय	60000	60000	120000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	800000	0	800000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500000	0	500000
13 - टेलीफोन पर व्यय	200000	250000	450000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों	1000	0	1000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	300000	0	300000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	15500000	0	15500000
18 - प्रकाशन	100000	0	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	1000000	0	1000000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	200000	0	200000
23 - गृह सेवा व्यय	22500000	2508000	25008000
24 - बृहत् निर्माण कार्य	1100000	0	1100000
25 - लघु निर्माण कार्य	200000	0	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	600000	0	600000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	300000	400000
29 - अनुरक्षण	900000	0	900000
42 - अन्य व्यय	150000	0	150000
44 - प्रशिक्षण व्यय	142000	0	142000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	400000	0	400000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	250000	0	250000
	63126000	3418000	66544000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3418000

(हेमा पाण्डे)
 अनु सचिव
 कार्यालय विभाग
 उत्तराखण्ड सरकार